



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 2017/अग्रहायण 29, 1939

No. 335] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 2017/AGRAHAYANA 29, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2017

मामला सं. एसएसआर 18/2017

विषय : कोरिया जनवादी गणराज्य, चीनी ताइपेई और इजराइल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'पेथेलिक एनहाइड्राइड' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/9/2017-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 जिसे 1995 और उसके बाद संशोधित किया गया है (इसके बाद अधिनियम के रूप में भी संदर्भित) और सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद प्राधिकारी के रूप में भी संदर्भित) ने दिनांक 11 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 7/19/2017-डीजीएडी के द्वारा कोरिया जन.गण., चीनी ताइपेई और इजराइल (इसके बाद संबद्ध देशों के रूप में भी संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "पेथेलिक एनहाइड्राइड" (इसके बाद संदर्भ वस्तुओं के रूप में भी संदर्भित) के आयातों पर निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच आरंभ की।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 12 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

जांच की अवधि

"वर्तमान जांच के प्रयोजन से जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2016-सितंबर, 2017 (18 महीने) है। क्षति की जांच की अवधि में अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015, अप्रैल 2015 से मार्च, 2016 और जांच की यह अवधि शामिल होगी। जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच भी पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए की जा सकती है।"

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 20th December, 2017

Case No. SSR 18/2017**Sub : Initiation of Anti-Dumping Sun Set Review investigation concerning imports of “Phthalic Anhydride” originating in or exported from Korea RP, Chinese Taipei and Israel.**

F. No. 7/19/2017-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter also referred as the Authority) initiated sunset review anti-dumping investigations on imports of “Phthalic Anhydride” (hereinafter also referred as the subject goods), originating in or exported from Korea RP, Chinese Taipei and Israel (hereinafter also referred as the subject countries) vide Notification No. 7/19/2017-DGAD dated 11th December 2017.

3. Para 12 of the said Notification shall be read as under:

Period of Investigation

“The period of investigation (POI) is April 2016 – September 2017 (18 months) for the purpose of present investigation. The injury investigation period will however cover the periods April 2013-March 2014, April 2014 - March 2015, April 2015-March 2016 and the POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.”

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority